



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 157 राँची, मंगलवार,

27 फरवरी, 2018 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

18 अगस्त, 2017

विषय- झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी सेवा के अराजपत्रित संवर्ग के पदों के विरुद्ध होने वाली नियुक्तियों को निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 के दायरे से तथा निःशक्त जनों के लिए तीन प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के सामंजस्य से मुक्त रखने के संबंध में ।

संख्या-07/हो०गा० (स्था०)-07/2016-4883-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-5671, दिनांक 4 जुलाई, 2016 के कंडिका-1(क) में प्रावधानित है कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 33 के अंतर्गत राज्य सरकार के सभी विभागों/कार्यालयों/लोक उपक्रमों/निगमों/निकायों/बार्डों के विभिन्न प्रकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा राज्य सम्पोजित सभी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में कुल 03 प्रतिशत पद निःशक्त जनों के लिए आरक्षित होगा ।

2. उक्त संकल्प की कंडिका 02(क) में यह वर्णित है किसी स्थापना का कोई पद यदि निःशक्त जनों के किसी खास प्रवर्ग या सभी प्रवर्ग के लिए उपयुक्त नहीं माना जाय तो वैसे पदों के संपूर्ण कोटि के लिए अनुमान्य निःशक्त जन आरक्षण की प्रतिपूर्ति उन पदों में की जाय, जिन पदों के लिए संबंधित निःशक्त जन उपयुक्त समझा जाए ।
3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० का०आ०994 (अ) दिनांक 10 सितम्बर, 2002 द्वारा केन्द्रीय सरकार के सैन्य बलों के लड़ाकू कार्मिकों अर्थात् केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस , केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा असम राईफल के सभी श्रेणी के पदों को किए जाने वाले कार्य के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम के प्रावधान से मुक्त किया गया है ।
4. समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय, झारखण्ड, राँची द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में उपर्युक्त कंडिका 03 के तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (1996 का 1) की धारा 33 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी सेवा के अराजपत्रित संवर्ग के निम्न पदों के कार्य के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इन श्रेणियों में होने वाली सभी नियुक्तियों को उक्त अधिनियम के दायरे से तथा निःशक्त जनों के लिए तीन प्रतिषेध क्षैतिज आरक्षण के सामंजन से मुक्त किया जाता है ।

क्र०स०	पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत बल
1.	गुल्म समादेशक	9300-34800, ग्रेड पे-4200	76
2.	अधिनायक लिपिक	5200-20200, ग्रेड पे-2000	70
3.	अधिनायक अनुदेशक	5200-20200, ग्रेड पे-2000	152
4.	सिपाही	5200-20200, ग्रेड पे-1900	157
5.	सिपाही चालक	5200-20200, ग्रेड पे-1900	23
6.	सिपाही बैड/बिगुलर	5200-20200, ग्रेड पे-1900	64

ह०/-

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
